

July 12, 2022

To,
The Manager,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400051

The Manager,
BSE Limited,
25th Floor, P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Scrip Code: SATIN

Scrip Code: 539404

Sub: Newspaper Clippings of pre-dispatch intimation of Notice of 32nd Annual General Meeting ('AGM') scheduled to be held on Wednesday, August 10, 2022 published in newspapers

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with Ministry of Corporate Affairs' Circulars No. 20/2020 and 02/2022 dated May 5, 2020 and May 5, 2022 respectively, we hereby enclose copies of the Notice published on July 12, 2022 in Business Standard (English & Hindi) newspapers in respect of information to the shareholders regarding 32nd AGM scheduled to be held on Wednesday, August 10, 2022 through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

This is for your information and record.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Satin Creditcare Network Limited

VIPUL
SHARMA
Digitally signed
by VIPUL
SHARMA
Date: 2022.07.12
11:39:22 +05'30'

(Vipul Sharma)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a



HP COTTON

TEXTILE MILLS LTD

H. P. COTTON TEXTILE MILLS LTD

(CIN: L18101HR1981PLC012274)

REGD OFFICE: 15th K.M. Stone, Delhi Road, V.P.O. Mayar, Hisar-125044

Website: www.hpthreads.com E-mail: info@hpthreads.com

Tel: +91 11 4154047/1273; Fax: +91 11 49073410

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules").

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, in the name of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Adhering to the requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually, the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the financial year 2021-22 for taking appropriate action.

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority on itswebsite at www.hpthreads.com. Shareholders are requested to refer to the **weblink**: <https://www.hpthreads.com/corporate-information.php> to verify the details of the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialisation and transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules and upon such issue, the original certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by October 22, 2022, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action by the due date as per procedure stipulated in the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Registrar and Transfer Agents of the Company, Alankit Assignments Limited, Alankit House 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, Tel: +91-11-4254 1234; Fax: +91-11-4254 1201; Email: info@alankit.com.

For H.P. Cotton Textile Mills Ltd.
Shubham Jain
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: July 11, 2022

APPENDIX IV

[See rule 8 (1)]

POSSESSION NOTICE

(for immovable property)

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN: L65922DL2005PLC136029)** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices dated **28.03.2022** calling upon the Borrowers **SHYAM SUNDER, VARUN GOEL AND KANTA** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.38,14,536.38 (Rupees Thirty Eight Lakhs Fourteen Thousand Five Hundred Thirty Six and Paise Thirty Eight Only)** against Loan Account No. **HHLDMT00414441** as on **25.03.2022** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken **symbolic possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **08.07.2022**.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount of **Rs.38,14,536.38 (Rupees Thirty Eight Lakhs Fourteen Thousand Five Hundred Thirty Six and Paise Thirty Eight Only)** as on **25.03.2022** and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

UNIT NO. B-802 HAVING SUPER AREA 1200 SQUARE FEET ON 8TH FLOOR, TOWER B, BEETLE LAP, PLOT NO. GH-G2, SECTOR 25, JAYPEE GREEN SPORTS CITY, GAUTAM BUDDHA NAGAR – 201303, UTTAR PRADESH TOGETHER WITH CAR PARKING SPACE.

Sd/-
Authorised Officer
Place: GAUTAM BUDDHA NAGAR
INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

FORM NO. CAA. 2

[Pursuant to Section 230 (3) of Companies Act 2013 and Rule 6 & 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations), Rules 2016]

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHENNAI BENCH. (CAA/12/CHE/2022 & CA(CAA)/13/CHE/2022

IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION (MERGER) OF SREE VENKATESWARA STRUCTURALS PRIVATE LIMITED (TRANSFEROR COMPANY) AND SREEVATS REAL ESTATES PRIVATE LIMITED (TRANFERRSEE COMPANY)

Sree Venkateswara Structurals Private Limited (CIN: U02919TZ1985PTC001694), at 8/2, Mettupalayam Road, Coimbatore – 641043
.....Applicant/transferor company

Sreevatsa Real Estates Private Limited, (CIN:701011TZ1995PTC005875)at 8/2, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641043
.....Applicant/Transferee company

To,

All the unsecured creditors of Sree Venkateswara Structurals Private Limited (Transferor Company) and all the shareholders & unsecured creditors of Sreevatsa Real Estates Private Limited (Transferee Company)

Advertisement of Notice of the meeting of Shareholders and Unsecured Creditors

NOTICE is hereby given that, by an order dated 01st July 2022 (the "Order") in the above mentioned Company Applications, the National Company Law Tribunal, Chennai Bench ("NCLT" or "Tribunal") has directed meeting of the unsecured creditors of the Transferor company and the Transferee Company and the meeting of the shareholders of the Transferee Company to be held for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the arrangement embodied in the Scheme of Arrangement for merger between Sree Venkateswara Structurals Private Limited (Transferor Company) And Sreevatsa Real Estates Private Limited (Transferee Company) under sections 230 and 232 of Companies Act, 2013 ("Scheme").

In pursuance of the said Order and as directed therein further notice is hereby given that meeting of the unsecured creditors of the Transferor company and the Transferee Company and the meeting of the shareholders of the Transferee Company will be held on 15th August.2022 (Monday)as under:

Name of the Company	Type of Meeting	Time
Sreevatsa Real Estates Private Limited (Transferee Company)	Shareholders	10.00 AM
Sree Venkateswara Structurals Private Limited (Transferor Company)	Un-secured Creditors and Trade Creditors	11.30 AM
Sreevatsa Real Estates Private Limited (Transferor Company)	Un-secured Creditors and Trade Creditors	02.00 PM

The aforesaid meetings will be held through video conferencing or other audio-visual means ("VC/ OAVM"). Further, there shall be no meeting requiring physical presence at a common venue in view of the present circumstances on account of the COVID-19 pandemic. At such day you are requested to attend using the video conference link that will be provided by the applicant companies to the person authorised to attend the relevant meeting. Notice with all requisite details and documents will be sent to the registered mail id of the respective shareholders and unsecured creditors, as the case may be.

Copy of the notice in relation to the Meeting, together with the copy of the scheme and documents accompanying the same, including the explanatory statements under Sections 230(3), 232(1), 232(2) and 102 of the Act read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 ("Rules") ("Explanatory Statement") can be obtained free of charge on any working day (except Sunday and public holidays) from the registered office of the Applicant companies at 8/2, Mettupalayam Road, Coimbatore – 641043 or from the office of their authorised representative being KSR & Co Company Secretaries LLP, at 7C, Mayflower Signature, No.365/13, Avinashi Road, Peelamedu, Coimbatore 641 004.

The Tribunal has appointed Mr.R.Vidhya Shankar, Advocate as the Chairperson of the above said meetings of Transferor Company and Transferee Company.

Sd/-
Mr. R. Vidhya Shankar
Chairperson appointed by the Tribunal for the meeting

Date : 12.07.2022
Place : Coimbatore

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Rule 8-(1)					
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IFL HOUSING FINANCE LIMITED under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the following borrower/s to repay the amount in the notice being mentioned below within 60 days from the date of receipt of the said notice					
LAN No.	Borrower/s	Amount	Demand Notice Date	13 (4) Rule 8 Date	Property Address
LNBLW0051 9-200000915	Mr. Shyam Lal Khatik, Mrs. Seema Devi Khatik, Mr.	Rs. 3,68,641/-	07.05.2022	08-07-2022	Patta No 01, Missal No 14, Gram Panchayat Bardod,Panchayat Samiti Suwana, District Bhiwara, Rajasthan 311025
LNCHR0062 1-2200033580	Mr. Ratan Singh and Mrs. Lachu Bai	Rs. 2,24,547/-	07.05.2022	08-07-2022	Patta No 11471, Book No 89, Missal No 83/2020-21, Gram Panchayat Somi, Panchayat Samiti Rashmi District Chittorgarh Rajasthan-312203
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules.					
The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IFL HOUSING FINANCE LIMITED for an amount as mentioned herein under with interest thereon.					
Place: Rajasthan Date: 11.07.2022				IFL Housing Finance Ltd. Authorised Officer	

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India


BOI

POSSESSION NOTICE
See Rule 8(1)

Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 under 13[12] read with Rule 3 of the security interest [Enforcement] Rules, 2002, calling them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is given to the under noted Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the properties described herein below in exercise of the power conferred on him/her under Section 13[4] of the said Act read with rule 8 & 9 on the dates mentioned hereunder. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Bank of India, for an amount including interest & other charges thereon mentioned against each account herein below. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of Act., in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of the Borrower/Guarantor	Description of Properties Mortgage/Owner of the properties	Date of Possession	O/S as per notice U/S 13(2)Date of Demand notice
Branch : Mathura Main			
Borrower/Mortgagor- Mr. Ashok Kumar Sharma S/o Sh. Hari Mohan Sharma, Guarantor- Mr. Girdip Bharangar S/o Komal Singh	All that part & parcel of the property consisting of Equitable mortgage of residential property situated at East side of Plot No.6, part of Khasra No. 273, 274 & 275 situated at Mauza Maholi, Inside Madhuvan Vatika, Teh. & Dist. Mathura, Area- 63.61 Sq. Mr., Property in the name of Sh. Ashok Kumar Sharma S/o Sh. Hari Mohan Sharma, Bounded as: East- Plot No.5, West- Remaining part of plot no 6, North- 7.50 mt. wide Road, South- Plot No.3	07.07.2022	₹ 22,10,807.50 + Intt. & other charges 04.04.2022
Borrower- M/s. Deepak Enterprises, Prop.- Mr. Deepak Khanna S/o Sh. Vijay Khanna, Guarantor- Mr. Vijay Kumar Khanna S/o Sh. Ram Murti Khanna	1) Hypothecation of stocks situated at shop no 1, B.M. Plaza Market, Dampier Nagar, Mathura (U.P.) and 8, Himmatpura, Dhauri Pyau, Mathura or in transit 2) All that part & parcel of the property consisting of Equitable Mortgage of Property in Survey No. 221 (Part), Khewat No. 1, Muhul Baramad Chavani, Mauza Mathura Bangar, Area- 83.61 Sq. Mr., Property in the name of Shri Vijay Kumar Khanna S/o Shri Ram Murti Khanna, Bounded as: East- Cantonment Board, West- Rasta 10 feet, North- Property of Devendra Bansal, South- Property of Mukesh Gupta.	07.07.2022	₹ 38,08,303.78 + Intt. & other charges 17.02.2022
Borrower- Mr. Nand Kishore Baghel, (Co-Borrower) Mrs. Preeti Sharma, Guarantor/ Mortgager- Mrs. Dropti W/o Shri Vijay Singh	All that part & parcel of the property consisting of Immovable property Situated at Mauza Rauchi Bangar Andrun, inside Gopalpura, Teh. & Disst. Mathura, Area- 181.14 Sq. Mr., Property in the name of Mrs. Dropti Devi W/o Mr. Vijay Singh, Bounded as: East- Rasta 18' wide, West- Rasta 18' wide, North- Shop of Vijay singh, South- .Shop of Vijay singh,	07.07.2022	₹ 26,45,991.81 + Intt. & other charges 16.03.2022
Borrower- M/S Nand Sales Corporation, Prop- Mr. Nand Kishore Baghel S/o Mr. Vijay Singh, Guarantor/ Mortgager- Mr. Ter Singh S/o Mr. Ram Swaroop	All that part & parcel of the property consisting of Immovable property Situated at Khasra No.45 Mi, Mauza Rauchi Bangar Gopalpura, Teh. & Disst. Mathura, Area- 159.60 Sq. Mr., Property in the name of Mr. Ter Singh S/o Mr. Ram Swaroop, Bounded as: East- Land of Rajveer, West- Land of Giraj Singh, North- Rasta 12 Ft. wide, South- Other's Land	07.07.2022	₹ 27,05,181.84 + Intt. & other charges 16.03.2022
Borrower/Mortgagor- Mr. Naveen Khanna S/o Lt. Sh. Murari Lal Khanna, (Co Borrower/Mortgagor)- Mr. Vivek Khanna S/o Lt. Sh. Murari Lal Khanna, Guarantor- Mr. Anurag Khatri S/o Sh. Lakhpat Raj Khatri	All that part & parcel of the property consisting of Residential Property Situated at Plot No 200, Radhika Vihar Colony, Sonkh Road, Teh. & Dist. Mathura, Area- 162.00 Sq. Mr., Property in the name of Sh. Naveen Khanna and Sh. Vivek Khanna both S/o Lt. Sh. Murari Lal Khanna, Bounded as: East- Plot No. 199, West- Plot No. 201, North- Rasta 12 Mtr. wide, South- E.W.S. House.	07.07.2022	₹ 13,02,490.08 + Intt. & other charges 04.04.2022
Borrower/Mortgagor- Mr. Rajveer Singh S/o Sh. Rohan Singh	All that part & parcel of the property consisting of Residential Property Situated at the part of Plot No 22, Khasra No. 20, Mauza Tantoori, inside Buddh Vihar Colony, Teh. & Distt. Mathura, Area- 72.62 Sq. Mr., Property in the name of Mr. Rajveer Singh S/o Sh. Rohan Singh, Bounded as: East- Rasta 18 ft. West- Land Seller Narayan Singh, North- Part of Plot No. 22, South- Plot No. 23.	07.07.2022	₹ 3,41,432.25 + Intt. & other charges 08.04.2022

Date: 12-07-2022**Authorised Officer, Bank of India**



SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED

CIN: L65991DL1990PLC041796

Registered Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033

Corporate Office: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase II, Gurugram, Haryana-122016

Ph. No. 0124-4715400; Website: www.satincreditcare.com Email Id: secretarial@satincreditcare.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Satin Creditcare Network Limited ("the Company") will be held on **Wednesday, August 10, 2022 at 11:00 A.M.** (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred as "SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the AGM Notice ("Notice") which will be circulated for convening the AGM.

The Notice along with Integrated Annual Report for the Financial Year ("FY") 2021-22 will be sent by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant ("DP")/ Depository, in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars. Members may note that the Notice along with Integrated Annual Report for FY 2021-22 will also be available on the Company's website at www.satincreditcare.com, website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at <https://www.evotingindia.com>.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

If your e-mail ID is registered with the Company/DP/Depository, login details for e-voting will be send on your registered email address.

Members who have not registered/updated their e-mail address with the Company/DP/Depository are requested to follow the below instructions:

Dematerialized Holding	Register / update e-mail address in your demat account, as per the process advised by your DP/Depository
Physical Holding	Register / update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms pursuant to Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, with Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, Link Intime India Pvt. Ltd. by email to swapann@linkintime.co.in . The Company has sent letters to the members about which folios are incomplete for furnishing the required details under aforesaid SEBI Circular.
	Members may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") under " <i>Update of KYC Details & Compulsory Issue of Shares in Dematerialized Form</i> " under Investor FAQ on Company's website https://satincreditcare.com/investor-relations-satin-creditcare/#Other


Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with the Company/DP/Depository or any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date, may cast their vote through remote e-voting or through e-voting at AGM in the manner as prescribed in the Notice.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in Compliance with MCA Circulars and the SEBI Circulars.

For Satin Creditcare Network Limited
Sd/-
Vipul Sharma
(Company Secretary & Compliance Officer)

Place: Gurugram
Date: 11.07.2022

बैंक ऑफ़ कनारा
Canara Bank



Canara Bank, Arm Branch, Sethi Colony, Jaipur

CORRIGENDUM

Dated 11.07.2022 in this Newspaper publish in E-Auction Sale Notice of Borrower- 1. M/s Bhati Tyre, 2. M/s Mark Splendour Nonwovens Pvt. Ltd. 3. Shri Pradeep Prasad Shrivastava S/o Gopal Prasad Shrivastava, in terms & Conditions- This Publication of e-auction notice is made for the general public to participate in e-auction and is also an advance notice to the Borrowers/Partners/ Guarantors/Mortgagors/Directors pertaining to the above mentioned accounts in terms of the stipulated guidelines of the SARFAESI Act Should be read and understood. Rest matter will be same and unchanged.

AUTHORISED OFFICER, CANARA BANK

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in



Insight Out

APPENDIX IV

[See rule 8 (1)]

POSSESSION NOTICE

(for immovable property)

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated **24.12.2021** calling upon the Borrower(s) **HARISH CHANDER ALIAS HARISH CHANDER GAUR, SHAMBHU DUTT AND SHANTA DEVI** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs.29,24,387.17 (Rupees Twenty Nine Lakhs Twenty Four Thousand and Three Hundred Eighty Seven Paise Seventeen Only)** against Loan Account No. **HHLNOD00377033** as on **23.12.2021** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken **symbolic possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **08.07.2022**.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount of **Rs.29,24,387.17 (Rupees Twenty Nine Lakhs Twenty Four Thousand Three Hundred Eighty Seven Paise Seventeen Only)** as on **23.12.2021** and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY


FLAT NO. 78-B, 'REGENT' (WITHOUT ROOF RIGHTS) HAVING AREA ADMEASURING 70.63 SQUARE METERS ON THE FIRST FLOOR, SITUATED AT SHIPRA SUN CITY, INDIRAPURAM, GHAZIABAD, TEH. & DIST. GHAZIABAD-201014, UTTAR PRADESH.

THE SAID FLAT IS BUTTAD AND BOUNDED AS FOLLOWS:-

ON THE EAST : FLAT NO. 77-B ON THE WEST : PASSAGE

ON THE NORTH : FLAT NO. 80-B ON THE SOUTH : FLAT NO. 76-B

Sd/-
Authorised Officer
Date : 08.07.2022
Place: GHAZIABAD
INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED



VINYL CHEMICALS (INDIA) LIMITED

CIN: L24100MH1986PLC039837

Regd. Office: Regent Chambers, 7th Floor, Jammalal Bajaj Marg, 208, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Tel: 2282 2708; Fax: 2204 3969; E-mail: cs.vinylchemicals@pidilite.com Website: www.vinylchemicals.com

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with relevant Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circular') and also Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Members of **Vinyl Chemicals (India) Limited (Company) will be held on Friday, 12th August, 2022 at 12.00 noon through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM)** facility without the physical presence of the Members at a common venue in view of the continuing COVID-19 pandemic, to transact the business as stated in the Notice convening the said AGM.

Notice convening the AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2021-2022 along with the login details for joining the 36th AGM through VC/OAVM facility is being sent only by electronic mode (e-mail) to those Members who have registered their e-mail ids with the Company/Depository Participants (DP) in accordance with the aforesaid MCA Circular and SEBI Circulars. The Company has also made available the AGM Notice along with the Annual Report on its website www.vinylchemicals.com, on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

The instructions for joining the AGM are given in the Notice of the AGM. The Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, 2nd August, 2022 to Friday, 12th August, 2022** (both days inclusive) for the purpose of dividend and AGM.

The Company is providing to all its Members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM through electronic voting system prior to the AGM (remote e-voting) and during the AGM (e-voting). The Company has entered into an arrangement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating remote e-voting/e-voting services. If your email ID is already registered with the Company/DP, the login details for e-voting are being sent on your registered email address. The remote evoting period shall commence on **Tuesday, 9th August, 2022 at 9.00 a.m. (IST)** and end on **Thursday, 11th August, 2022 at 5.00 p.m. (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 pm on Thursday, 11th August, 2022.

The voting rights, by remote e-voting/e-voting, shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on **Friday, 5th August, 2022 (cut-off date)**. The Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on cut-off date. The Members who have acquired shares after the date of despatch of the Annual Report and holding shares as of the cut-off i.e **Friday, 5th August, 2022**, may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The Members who may have cast their vote through remote e-voting may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be allowed to cast their vote again through e-voting facility in the AGM. Detailed procedure of e-voting is available in the AGM Notice as well as in the email sent to the Members by NSDL. In case of any queries pertaining to evoting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, NSDL, 4th Floor, A-Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, email: evoting@nsdl.co.in or amitv@nsdl.co.in, Tel: 2499 4200 or a toll free number 1800 222 990.

In case you have not registered your e-mail address and/or updated your Bank details with the Company/DP, you may follow the instructions given below for obtaining login details for e-voting for joining AGM through VC/OAVM.

Physical Holding:
Send a signed letter to the Company's R & T Agents providing Folio No., name of shareholder along with copy of PAN (self attested) and email-id details for registering email address.

For updating bank account mandate, for receiving dividends directly in their bank accounts, hard copies of the following documents are to be sent to R & T Agents:

a. Signed letter mentioning your Name, Folio Number, complete address and following details relating to Bank Account in which the dividend is to be received viz. i) Name and Branch of Bank and Bank Account type; ii) Bank Account Number allotted by your Bank after implementation of Core Banking Solutions and iii) 11 digit IFSC Code;

b. Cancelled cheque in original bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly;

c. Self-attested copy of the PAN Card and;

d. Self-attested copy of any document (viz. Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) for address verification of the Member as registered with the Company/ R & T Agents

Demat Holding:
Please contact your Depository Participant and register e-mail address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

By Order of the Board
P.C. Patel
President & Secretary

July 12, 2022
Mumbai

जून में नए एसआईपी खाते घटे

चिराग मडिया मुंबई, 11 जुलाई

स्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों के नए खातों की संख्या जून में घट गई क्योंकि दो साल में पहली बार 12 महीने का रिटर्न नकारात्मक हो गया। यहां तक कि बंद होने वाले एसआईपी खाते की संख्या भी बढ़ी।

नए पंजीकृत एसआईपी खातों की संख्या 17.9 लाख रही, जो मई में करीब 20 लाख रही थी। यह जानकारी उद्योग निकाय एसोसिएशन ऑफ़ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फ़ी) के आंकड़ों से मिली। जून 2021 से नए एसआईपी खातों का पंजीकरण हर महीने 20 लाख से ज्यादा रहा है।

एम्फ़ी के मुख्य कार्याधिकारी एन एस वेंकटेश ने कहा, एसआईपी खाताधारक सतर्क हो गए हैं। पिछले तीन महीने में बाजार में काफी उतारचढ़ाव देखने को मिला है और इसमें गिरावट का रुख है। ऐसे में एसआईपी निवेशकों की सतर्कता स्वाभाविक है। हम एसआईपी निवेशकों को सुझाव देना चाहेंगे कि वे बाजार का अनुमान न लगाएं और लक्ष्य आधारित अपने निवेश पर ध्यान बनाएं रखें।

बंद किए गए एसआईपी खाते या जिनकी अवधि पूरी हो गई है, वैसे खातों की संख्या भी बढ़कर 11.4 लाख हो गई, जो जनवरी के बाद का सर्वोच्च स्तर है।

पिछले कुछ महीनों में भारतीय इक्विटी में काफी उतारचढ़ाव रहा है, जिसकी वजह बढ़ती महंगाई, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लगातार हो रही बिकवाली को लेकर चिंता थी।

पिछले महीने एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स करीब 4.6 फीसदी लुढ़क गया, वहीं एसएंडपी बीएसई मिडकैप इंडेक्स और एसएंडपी बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स में क्रमशः 6.18 फीसदी व 6.01 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। तीनों सूचकांक माह के दौरान तीन महीने के अपने-अपने निचले स्तर पर आ गए, जिसकी वजह से एक साल का रोलिंग रिटर्न नकारात्मक हो गया।

विशेषज्ञों ने कहा कि हालिया रिटर्न की वजह से ही बाजार में होने वाले निवेश पर असर पड़ा है।

नए एसआईपी खाते खुलने की रफ्तार में नरमी के बावजूद इसके जरिये होने वाला निवेश मजबूत बना हुआ है। एसआईपी के जरिए जून में 12,276 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो मई के 12,286 करोड़ रुपये के मुकाबले थोड़ा कम है।

एसआईपी खातों की संख्या जून में अब तक के नए उच्चस्तर 5.54 करोड़ हो गई, जो पहले 5.48 करोड़ थी। एसआईपी के तहत प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां



नए पंजीकृत व बंद हुए एसआईपी खाते			
अवधि	एसआईपी खाते (लाख)		
	नए	बंद किए गए*	
जनवरी 22	26.5	12.5	
फरवरी 22	23.5	11.0	
मार्च 22	20.9	10.5	
अप्रैल 22	21.8	10.5	
मई 22	19.7	10.3	
जून 22	17.9	11.4	

स्रोत : एम्फ़ी * वैसे खाते भी शामिल, जिनकी अवधि पूरी हो गई

(ए्यूएम) जून 2022 के आखिर में 5.51 लाख करोड़ रुपये रही।

एसआईपी के जरिए लगातार हो रहे सकारात्मक निवेश से कुल इक्विटी निवेश को सहारा मिला है, जिससे एफपीआई की तरफ से हो बिकवाली की भरपाई करने में मदद मिली है। जून में इक्विटी फंडों में 15,498 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही में इक्विटी फंडों में शुद्ध निवेश करीब 50,000 करोड़ रुपये रहा।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि अगर बाजार अगले कुछ महीने तक अस्थिर रहता है तो इक्विटी फंडों पर इसका असर दिखेगा और इसमें निवेश की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

और भी नीचे लुढ़क गया रुपया

भास्कर दत्ता मुंबई, 11 जुलाई

सोमवार को अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपये ने नया निचला स्तर बनाया। डोलरों का कहना है कि यूरोप में बदतर हो रहे ऊर्जा संकट के बीच वैश्विक तौर पर कमजोर आर्थिक वृद्धि की आशंका के बीच डॉलर में मजबूती आई है। घरेलू मुद्रा पूर्ववर्ती बंद भाव 79.25 के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की तुलना में 79.44 पर बंद हुई। रुपये के लिए निचले स्तर पर बंद होने का पिछला रिकॉर्ड 5 जुलाई को 79.35 प्रति अमेरिकी डॉलर था। 2022 में अब तक रुपये में डॉलर के मुकाबले 6.4 प्रतिशत की कमजोरी आ चुकी है।

करीब 6 प्रतिस्पधी मुद्राओं के खिलाफ डॉलर का मापक अमेरिकी डॉलर सूचकांक सोमवार को 107.74 की 20 वर्षीय ऊंचाई पर पहुंच गया। ब्लूमबर्ग के आंकड़े से पता चलता है कि इस सूचकांक के लिए पिछला बंद भाव 107.01 था।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरें बढ़ाने और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ऊंची मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के सख्त प्रयासों पर ज्यादा जोर देने से वैश्विक तौर पर आर्थिक वृद्धि में मंदी की आशंका गहरा गई है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से आपूर्ति



श्रृंखला बाधित होने से भी यूरोप में गंभीर ऊर्जा किल्लत को बढ़ावा मिला है जिससे वृद्धि को लेकर परिदृश्य खराब हो रहा है। अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा के उपायों के बीच, भारत के बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर चिंताओं से भी वैश्विक निवेश की निकासी से रुपये पर दबाव पड़ा है।

भारत ने जून में 25.63 अरब डॉलर का सर्वाधिक व्यापार घाटा दर्ज किया।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2022 में अब तक 30.3 अरब डॉलर मूल्य की भारतीय परिसंपत्तियां बेची हैं, जो वर्ष 2008 के मुकाबले तीन गुना से भी

गोल्ड ईटीएफ में निवेश 34 फीसदी घटा

घरेलू म्युचअल फंडों द्वारा पेश स्वर्ण ईटीएफ योजनाओं में 135 करोड़ रुपये का शुद्ध पूंजी प्रवाह दर्ज किया गया, जो मासिक आधार पर करीब 34 प्रतिशत की गिरावट है। पूर्ववर्ती तीन महीनों में निवेशकों ने स्वर्ण ईटीएफ में प्रत्येक महीने औसत 500-500 करोड़ रुपये का निवेश किया था। गोल्ड ईटीएफ श्रेणी में निवेशक फोलियो मई के 45 लाख के मुकाबले जून में बढ़कर 46 लाख हो गए। जून में इस उद्योग के निवेशकों को सोने में ज्यादा पूंजी निवेश आकर्षित होने की संभावना थी, क्योंकि इक्विटी बाजारों में गिरावट आई। सोने को सुरक्षित निवेश वाले परिसंपति वर्ग के तौर पर देखा जाता है और जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियां खराब हालात में होने पर इसमें निवेश बढ़ जाता है। जून में घरेलू स्वर्ण कीमतों में मामूली कमी आई, जबकि सेंसेक्स में करीब 55 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। साल में अब तक (वाईटीडी) आधार पर, घरेलू स्वर्ण कीमतें 6 प्रतिशत चढ़ी हैं, जबकि सेंसेक्स में 9 प्रतिशत की कमी आई। मॉनिंगस्टार इंडिया में विश्लेषक-शोध प्रबंधक कविता कृष्णन ने कहा, 'जब बात सोने की हो तो कीमत में उतार-चढ़ाव अमेरिकी डॉलर, ब्याज दर और मुद्रास्फीति जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। निवेशकों द्वारा स्वर्ण ईटीएफ में निवेश बरकरार रखे जाने की संभावना है, क्योंकि ऐसा करने से उनके पोर्टफोलियो में विविधता आएगी और स्वर्ण ईटीएफ बाजार जोखिम के खिलाफ उन्हें बचाए रखेगा।'



स्वर्ण ईटीएफ (करोड़ रुपये)				स्टैंडर्ड गोल्ड
	शुद्ध प्रवाह	एयूएम	रुपये/10 ग्राम	प्रतिफल%
जनवरी, 2022	-452	17,840	47,642	-0.5
फरवरी, 2022	- 248	18,728	50,493	6.0
मार्च, 2020	205	19,281	51,278	1.6
अप्रैल, 2022	1100	20,430	51,847	1.1
मई, 2022	203	20,262	50,920	-1.8
जून, 2022	135	20,249	59,659	-0.5

स्रोत: एम्फ़ी, आईबीजेआई, एक्सचेंज

आंकड़े: बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा संकलित

आरकैप के बॉन्ड का एलआईसी को नहीं मिला खरीदार

रिलायंस कैपिटल की तरफ से जारी 3,400 करोड़ रुपये के बॉन्ड में एलआईसी ने निवेश किया था और अब उसे बेचने की बीमा दिग्गज की योजना है, पर परिसंपति पुनर्गठन कंपनियों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। इसके लिए अभिरुचि पत्र जमा कराने की समयसीमा आज समाप्त हो गई।

सूत्रों ने कहा कि एआरसी को दिवालिया फर्म का बॉन्ड खरीदना आकर्षक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अभिरुचि पत्र जमा नहीं कराया। एक सूत्र ने कहा कि आईडीबीआई कैपिटल (जिसे बॉन्ड बेचने का काम सौंपा गया है) इसकी समयसीमा बढ़ाकर 22 जुलाई करेगा। अभिरुचि पत्र के बाद इस बॉन्ड की बिक्री की लिए नीलामी होगी।

रिलायंस कैपिटल को पिछले साल नवंबर में दिवालिया अदालत में घसीटा गया जब कंपनी ने एलआईसी व अन्य बैंकों और प्रॉविडेंट फंडों समेत लेनदारों के कर्ज भुगतान में चूक की। रिलायंस कैपिटल के बॉन्ड की ट्रेडिंग अभी कीमत के मुकाबले 70 फीसदी छूट पर हो र ही है और इसने निवेशकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर एलआईसी या अन्य निवेशकों को बाजार में यह बॉन्ड बेचना पड़े तो उन्हें अपने निवेशका सिर्फ 30 फीसदी ही मिल पाएगा। एलआईसी समेत अन्य लेनदारों ने रिलायंस कैपिटल के खिलाफ 23,666 करोड़ रुपये का दावा किया है। चूंकि परिसंपति बिक्री में देर हो रही है, ऐसे में एलआईसी ने परिसंपति पुनर्गठन फर्मों से बॉन्ड के लिए बोली मांगी।

जेफरीज ने छह आईटी शेयरों को किया डाउनग्रेड

पुनीत वाधवा नई दिल्ली, 11 जुलाई

अमेरिका में मंदी की संभावना ने विश्लेषकों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों को लेकर सतर्क कर दिया है और जेफरीज के विश्लेषकों ने छह लार्ज व मिडकैप देसी आईटी शेयरों को डाउनग्रेड कर दिया है। इनमें टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, कोफोर्ज, एलएंडटी इन्फोटेक और माइंडट्री शामिल हैं।

जेफरीज के अक्षत अग्रवाल और अंकुर पंत ने एक नोट में कहा है, भारतीय आईटी फर्मों के राजस्व की रफ्तार 340 आधार अंक घट सकती है, जिसकी वजह वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका में आने वाली मंदी है। हम राजस्व और प्रति शेयर आय पर अपना अनुमान 15 फीसदी तक घटा रहे हैं और लग रहा है कि आय में कटौती आईटी शेयरों के पीछे की दोबारा रेटिंग करेगा। यह नोट शुक्रवार को टीसीएस के नतीजे घोषित होने से पहले जारी हुआ था। इन्फोसिस जेफरीज का पसंदीदा शेयर है और कीमत लक्ष्य 1,700 रुपये है, जिसकी वजह क्षेत्र में अग्रणी बढ़त और मजबूत क्रियान्वयन है। टीसीएस के नतीजे के बाद एक अन्य नोट में ब्रोकरेज ने कहा कि मंदी के माहौल में कंपनी हालांकि बेहतर स्थिति में होगी, लेकिन इसका महंगा मूल्यांकन शेयर के प्रदर्शन पर असर डालेगा। जेफरीज ने 3,070 रुपये के कीमत लक्ष्य के साथ इसमें निवेशित रहने की सलाह दी है।

अग्रवाल ने पंत ने एक नोट में कहा है, हम एचसीएल को डाउनग्रेड कर होल्ड की श्रेणी में डालते हैं, जिसकी वजह ईआरएंडटी व प्रॉडक्ट बिजनेस में उसका ज्यादा एक्सपोजर है। टेक महिंद्रा को भी होल्ड श्रेणी में रखा गया है क्योंकि मार्जिन में कमी के कारण इसकी आय में तेज गिरावट

टीसीएस का शेयर 4.7 फीसदी टूटा

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर सोमवार को एनएसई पर 4.7 फीसदी टूटकर 3,112 रुपये पर बंद हुआ क्योंकि कंपनी का एबिटा मार्जिन जून तिमाही में क्रमिक आधार पर 185 आधार अंक घटकर 23.1 फीसदी रह गया।

सोमवार को यह शेयर हालांकि सबसे ज्यादा टूटा और उसने निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी नीचे खींच लिया, जो 3 फीसदी गिरकर बंद हुआ। इस तरह से यह सोमवार को क्षेत्रीय सूचकांकों में सबसे ज्यादा गंवाने वालों में शामिल हो गया जबकि बाजार करीब-करीब स्थिर बंद हुए।

टीसीएस में गिरावट का असर अन्य आईटी शेयरों पर भी पड़ा और एचसीएल टेक, कोफोर्ज, इन्फोसिस, माइंडट्री और एलएंडटी इन्फोटेक 2.85 फीसदी से लेकर 4.33 फीसदी तक टूटे। उधर, टेक महिंद्रा, विप्रो और एम्फैसिस में एनएसई में 1.6 फीसदी से लेकर 2 फीसदी तक की गिरावट आई।

टीसीएस का शुद्ध लाभ जून तिमाही में सालाना आधार पर 5.2 फीसदी बढ़ा जबकि क्रमिक आधार पर यह 2.5 फीसदी बढ़कर 9,478 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ब्लूमबर्ग के 9,850 करोड़ रुपये के लाभ के अनुमान को पूरा नहीं कर पाई। तिमाही में राजस्व सालाना आधार पर 16.2 फीसदी और क्रमिक आधार पर 4.28 फीसदी बढ़कर 52,758 करोड़ रुपये रहा।

आईसीआईसीआई सिंक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि मार्जिन पर वित्त वर्ष 24 तक दबाव रहेगा और वित्त वर्ष 22-24 में मार्जिन 30 आधार अंक घटेगा। हालांकि ब्रोकरेज ने खरीद की रेटिंग के साथ टीसीएस के लिए 3,785 रुपये का लक्ष्य बरकरार रखा है। नोमूरा के विश्लेषकों ने डॉलर के लिहाज से राजस्व में बढ़त का अनुमान सालाना आधार पर 9 फीसदी रखा है, जो पहले 10.8 फीसदी था, जिसमें ऑर्डर बुकिंग में सुस्ती और क्रॉस करेंसी अवरोध को समाहित किया गया है।

आईसीआईसीआई सिंक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि मार्जिन पर वित्त वर्ष 24 तक दबाव रहेगा और वित्त वर्ष 22-24 में मार्जिन 30 आधार अंक घटेगा। हालांकि ब्रोकरेज ने खरीद की रेटिंग के साथ टीसीएस के लिए 3,785 रुपये का लक्ष्य बरकरार रखा है। नोमूरा के विश्लेषकों ने डॉलर के लिहाज से राजस्व में बढ़त का अनुमान सालाना आधार पर 9 फीसदी रखा है, जो पहले 10.8 फीसदी था, जिसमें ऑर्डर बुकिंग में सुस्ती और क्रॉस करेंसी अवरोध को समाहित किया गया है।

आईसीआईसीआई सिंक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि मार्जिन पर वित्त वर्ष 24 तक दबाव रहेगा और वित्त वर्ष 22-24 में मार्जिन 30 आधार अंक घटेगा। हालांकि ब्रोकरेज ने खरीद की रेटिंग के साथ टीसीएस के लिए 3,785 रुपये का लक्ष्य बरकरार रखा है। नोमूरा के विश्लेषकों ने डॉलर के लिहाज से राजस्व में बढ़त का अनुमान सालाना आधार पर 9 फीसदी रखा है, जो पहले 10.8 फीसदी था, जिसमें ऑर्डर बुकिंग में सुस्ती और क्रॉस करेंसी अवरोध को समाहित किया गया है।

आईसीआईसीआई सिंक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि मार्जिन पर वित्त वर्ष 24 तक दबाव रहेगा और वित्त वर्ष 22-24 में मार्जिन 30 आधार अंक घटेगा। हालांकि ब्रोकरेज ने खरीद की रेटिंग के साथ टीसीएस के लिए 3,785 रुपये का लक्ष्य बरकरार रखा है। नोमूरा के विश्लेषकों ने डॉलर के लिहाज से राजस्व में बढ़त का अनुमान सालाना आधार पर 9 फीसदी रखा है, जो पहले 10.8 फीसदी था, जिसमें ऑर्डर बुकिंग में सुस्ती और क्रॉस करेंसी अवरोध को समाहित किया गया है।

आईसीआईसीआई सिंक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि मार्जिन पर वित्त वर्ष 24 तक दबाव रहेगा और वित्त वर्ष 22-24 में मार्जिन 30 आधार अंक घटेगा। हालांकि ब्रोकरेज ने खरीद की रेटिंग के साथ टीसीएस के लिए 3,785 रुपये का लक्ष्य बरकरार रखा है। नोमूरा के विश्लेषकों ने डॉलर के लिहाज से राजस्व में बढ़त का अनुमान सालाना आधार पर 9 फीसदी रखा है, जो पहले 10.8 फीसदी था, जिसमें ऑर्डर बुकिंग में सुस्ती और क्रॉस करेंसी अवरोध को समाहित किया गया है।

आईसीआईसीआई सिंक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि मार्जिन पर वित्त वर्ष 24 तक दबाव रहेगा और वित्त वर्ष 22-24 में मार्जिन 30 आधार अंक घटेगा। हालांकि ब्रोकरेज ने खरीद की रेटिंग के साथ टीसीएस के लिए 3,785 रुपये का लक्ष्य बरकरार रखा है। नोमूरा के विश्लेषकों ने डॉलर के लिहाज से राजस्व में बढ़त का अनुमान सालाना आधार पर 9 फीसदी रखा है, जो पहले 10.8 फीसदी था, जिसमें ऑर्डर बुकिंग में सुस्ती और क्रॉस करेंसी अवरोध को समाहित किया गया है।

डीमैट खाते खोलने की धीमी पड़ी रफ्तार

पृष्ठ-1 का शेष

देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध ब्रोकरेज कंपनी आईसीआईसीआई सिंक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी विजय चंडोक ने कहा, ‘बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी में खासी गिरावट आई है। किताब के दौरान वित्त वर्ष 2020 में 50 लाख डीमैट खाते खोले गए थे। वित्त वर्ष 2021 में यह आंकड़ा तिगुना होकर 1.5 करोड़ पहुंच गया और वित्त वर्ष

2022 में दोगुना यानी 3 करोड़ के पार पहुंच गया। नए डीमैट खाते के मामले में यह अब तक का रिकॉर्ड है। मगर अक्टूबर 2021 में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद से बाजार में गिरावट का रुख बना हुआ है, जिससे नए निवेशक बाजार में आने से परहेज कर रहे हैं।' देश में कुल डीमैट खातों की संख्या 9.65 करोड़ है, जिसमें से 1.6 करोड़ नए खाते वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में खोले गए। दूसरी छमाही में 1.85 करोड़ नए डीमैट खाते खोले गए।

<div> सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड</div> <div><small>CIN: L65991DL1990PLC041796</small></div> <div><small>पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर वाणिज्यिक परिसर, आजादपुर, दिल्ली-110033</small></div> <div><small>कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 492, उद्योग विहार, फेज III, गुरुग्राम, हरियाणा-122016</small></div> <div><small>फोन नंबर 0124-24715400; वेबसाइट: www.satincreditcare.com</small></div> <div><small>ई-मेल आईडी: secretarial@satincreditcare.com</small></div>	
32वीं वार्षिक सामान्य बैठक की शेरधारकों को सूचना	
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 10 अगस्त, 2022 को प्रातः 11:00 बजे (IST) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग /अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सर्कुलर संख्या 14/ 2020, 17/ 2020, 20/ 2020, 02/ 2021, 19/ 2021, 21/ 2021 और 02/ 2022 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 और 5 मई, 2022 ("एमसीए सर्कुलर") और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 12 मई, 2020 सर्कुलर संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के साथ पठित दिनांक 15 जनवरी, 2021 का सर्कुलर संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/ पी/2021/11 तथा दिनांक 13 मई, 2022 का सर्कुलर संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 ("सेबी सर्कुलर") के तात्त्वानुसार, एजीएम सूचना ("नोटिस") में निर्धारित व्यापार को लेन-देन करने के लिए एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम आयोजित करने के लिए परिचालित का आयोजित की जाएगी।	
उक्त एमसीए और सेबी सर्कुलर के अनुसार वित्तीय वर्ष ("वित्त वर्ष") 2021–22 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") /डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.satincreditcare.com , स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगा।	
सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।	
यदि आपकी ई-मेल आईडी कंपनी/डीपी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा।	
जिन सदस्यों ने कंपनी/डीपी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे जौबे दिए गए निर्देशों का पालन करें:	
डीमैट रूप से धारित करते हुए	अपने डीपी/डिपॉजिटरी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने डीमैट खाते में ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करें
भौतिक रूप से धारित करते हुए	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") सर्कुलर संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 के अनुसार कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") लिंक इन्टाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ईमेल द्वारा swapann@linkintime.co.in पर निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक प्रपत्रों में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें। कंपनी ने उन सदस्यों को पत्र भेजे हैं जिनके बारे में सेबी सर्कुलर के तहत आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए फोलियो अपूर्ण हैं। सदस्य कंपनी की वेबसाइट https://satincreditcare.com/investor-relations-satin-creditcare/#Other पर निवेशक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के तहत "केवाईसी विवरण" का अद्यतन और डीमैटरीयलडाइज्ड फॉर्म में शेयरों का अनिवार्य मुद्रा के तहत" अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ("एफएक्यू") का भी संदर्भ ले सकते हैं।
सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर रखने वाले या जिन्होंने कंपनी/डीपी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है या कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ डेट के अनुसार शेयर रखता है, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से नोटिस में निर्धारित माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।	
उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए की जा रही है और एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के अनुपालन में है।	
स्थान: गुरुग्राम दिनांक: 11.07.2022	हस्ता./— विपुल शर्मा (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)